

**Syllabus for cyclic test : 1**  
**GRADE:: 10**

<b>ENGLISH</b>	<b>Lit-L.1-A</b> letter to God, Poem-No.1 Dust of Snow.2.Fire and Ice S R.L.No-1 A triumph of surgery, Wr.Skills-.Letter of Inquiry.
<b>HINDI</b>	स्पर्श पाठ 1: बड़े भाई साहब, पद्य 1 : कबीर की साखी, व्याकरण - 1. पदबंध ,2. वाक्य रूपांतरण, अनुच्छेद लेखन
<b>SANSKRIT</b>	खण्ड: अ - व्याकरणम् 1. धातुरूप प्रयोग: - लङ्, लट्, लोट् लकारेषु 2. सर्वनाम शब्द प्रयोग: 3. कारकविभक्तयः - षड् विभक्तयः (प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी सप्तमी) व उदाहरण सहित। खण्ड: ब - रचनात्मक कार्यम् 1. हिन्दी वाक्येषु संस्कृतानुवादः - 2. चित्रवर्णनम् वा अनुच्छेद लेखनम् (संस्कृतवाक्यैः)
<b>MATHS</b>	CH1: REAL NUMBERS CH2: POLYNOMIALS
<b>SCIENCE</b>	<b>PHYSICS:</b> <b>Ch.11 HUMAN EYE AND COLOURFUL WORLD</b> 11.1 THE HUMAN EYE  11.1.1 POWER OF ACCOMODATION  11.2 DEFECTS OF VISION AND THEIR CORRECTION  11.3 REFRACTION OF LIGHT THROUGH PRISM.  11.4 DISPERSION OF WHITE LIGHT BY A GLASS PRISM  11.5 ATMOSPHERIC REFRACTION  11.6 SCATTERING OF LIGHT  <b>Ch.13 MAGNETIC EFFECTS OF ELECTRIC CURRENT</b> 13.1 MAGNETIC FIELD AND FIELD LINES  13.2 MAGNETIC FIELD DUE TO A CURRENT-CARRYING CONDUCTOR  13.2.1 MAGNETIC FIELD DUE TO A STRAIGHT CURRENT-CARRYING CONDUCTOR  13.2.2 RIGHT HAND THUMB RULE  13.2.3 MAGNETIC FIELD DUE TO A CURRENT THROUGH A CIRCULAR LOOP

	<p>13.2.4 MAGNETIC FIELD DUE TO A CURRENT IN A SOLENOID.</p> <p>13.3 FORCE ON A CURRENT CARRYING CONDUCTOR</p> <p>13.5 ELECTROMAGNETIC INDUCTION</p> <p>13.7 DOMESTIC ELECTRIC CIRCUIT</p> <p><b>CHEMISTRY:Chapter 1 . Chemical reactions and equations</b></p> <p><b>BIOLOGY: Chapter 5: Life Processes ( Only Introduction and Nutrition)</b></p>
<b>SOCIAL SCIENCE</b>	<p>CH1: Power sharing</p> <p>CH2: Federalism</p>